

एक नज़र

कोलंबिया में विमान क्रैश, दस की मौत

कोलंबिया। उत्तर-पश्चिमी कोलंबिया में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। पैसिफिक ट्रेल वाली की तरफ से संचालित विमान के बुधवार को जारी हो से मेडेलन के ग्रास्टे में लापता होने के जानकारी मिली थी और एंटीओक्या के उत्तर-पश्चिमी कोलंबियाई विभाग में एक नगर पालिका उर्वांव के एक ग्रामीण इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस समय विमान में चालक दल के दो सदस्य और आठ यात्री सवार थे। एंटीओक्या के प्रबंधन विभाग के निदेशक कालोंस विमान पुरुषों ने इसकी जानकारी दी है। पैसिफिक ट्रेल वाली की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा की जिंदगी नहीं बचा है। हमारे पास सात पर 37 कर्मी काम कर रहे हैं, और हम दूसरे फेज में तो जी ला रहे हैं, जिसमें शर्कों के ब्राम्पद करना और न्यायिक पुलिस के साथ समन्वय करना शामिल है। पैसिफिक ट्रेल वाली ने पीड़ित परिवारों को समर्पण देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। हम हर समय उक्त के साथ रहेंगे, सहायता प्रदान करेंगे और इस दुखवाल घटना से उत्पन्न होने वाली हर जरूरत को पूरा करेंगे।

एचएमपीवी वायरस के 16 केस

असम में 10 महीने का बच्चा पॉजिटिव

नई दिल्ली। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) के देश में कुल 16 मामले हो गए हैं। शनिवार को असम में पहला केस



हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच शनिवार

को केंद्रीय गृह मंत्री और सीनियर बीजेपी

नेता अमित शाह ने आज में ये कहकर जाता हूं कि ये मोदी की गारंटी है, एक-

एक दुग्धी वालों को पवका मकान देने

का काम भाजपा करेगी।

टीकू तलसानिया की हालत गंभीर

मुंबई। बॉलीवुड और गुजराती सिनेमा के मशहूर कॉमेडी एक्टर टीकू तलसानिया को शनिवार सुबह

क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक्टर की पत्नी ने कहा कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। वह एक फिल्म की

स्ट्रीनिंग देखने गए थे और रात 8 बजे के आसपास उनकी तबायत खारब होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। टीकू का इलाज मुंबई के कोलिबाबे बरूबरी अंबानी अस्पताल में चल रहा है।

थिएटर भगदड़ केस

अल्लू अर्जुन को कोर्ट से राहत

कर सकेंगे विदेश यात्रा

हैदराबाद। हैदराबाद की एक कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत देते हुए थिएटर भगदड़ मामले में जमानत

अब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक की जांच अधिकारी के सामने पेश होने से छुट मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें इस शर्त के साथ विदेश यात्रा करने की भी परमिशन दी है कि जरूरत पड़ने पर उन्हें

चिकित्सक डॉक्युमेंट दिया जाए।

रियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

स्कूलों में नहीं होगी शिक्षकों की कमी : सीएम

स्कूली छात्र पढ़ेंगे भगवद्गीता, आठवीं के सिलेबस में शामिल होंगे श्लोक

चंडीगढ़। हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारावान बनाने वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए आठवीं तक कक्षा तक तक श्रीमद्भगवद्गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में शामिल किया जाएगा। शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना तयार की जाएगी। आगामी शीर्षकांग सर में कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं बचाया जाएगा। जाहां जाहां शिक्षकों की कमी नहीं है। केवल जाहां की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैयारी की जाएगी। एक दोषी जाहां की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैयारी की जाएगी। जाहां अधिकारी वर्कर्सी अपनी कार्य प्रणाली में तुरंत कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्तर पर कार्य में बदलाव नहीं की जाएगी।

रियाणा में बनी पेपर लीक करने की इंडस्ट्री: धनखड़

नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेपर लीक को लेकर कहा है कि इस पर रोक लगानी चाहिए। पेपर लीक एक तरह का व्यापार बन गया है। अगर पेपर लीक होते हैं तो चोयन की निष्पक्षता का कोई महत्व नहीं रह जाता। पेपर लीक होना एक इंडस्ट्री बन गई है एक तरह का व्यापार बन गया है। ये एक ऐसी बुराई है, जिस पर लगाम लगानी चाहिए।

स्टेशन के एसएचओ के सामने पेश होना होगा। अल्लू को यह निर्देश दिया गया है कि वे चार्जशीट दाखिल होने तक हर विदेश यात्रा की जानकारी एसएचओ को देंगे। कोर्ट ने 10 जनवरी को जारी आदेश में कहा कि जमानत की बाकी शर्तें ज्यों की त्यों रहेंगी। कोर्ट ने यह फैसला अल्लू की तरफ से जमानत शर्तें में ढांचे की मांग करने वाली याचिका के बाद लिया।

हरियाणा में रिटायर्ड

जज ने की आत्महत्या

करुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रिटायर्ड जज ने बड़े भारत ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। उनका शब्द शाहबाद मारकांडे रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के बाल में पड़ा मिला। मुक्त की पश्चात रविंद्र कुमार कश्यप (78) के रूप में हुई है। वह पंचकूल में सेक्टर 27 के रहने वाले थे। रिटायर्ड जज की आत्महत्या की सूचना ट्रेन ड्राइवर ने ही जीआपी को दी थी। मोके पर पहुंचे रेलवे पुलिस ने शब्द की तलाशी ली तो जेव से एक सुसाइड नीति किला। उस पर लिखा था, मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है।

झुग्गी वालों को देंगे पवका मकान : शाह

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की गारंटी, गृहमंत्री का केजरीवाल पर कसा तंज : 'यमुना में कब डुबकी लगाएंगे'

दस साल में दिल्ली में 'आप' दा

ये आप-दा 10 साल से दिल्ली के लिए डिजास्टर का काम कर रही है। पूरा देश कहां से कहां से पहुंच गया और दिल्ली और गर्फ में चली गई जल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बार निकलो तो टूटी सड़क और छठ मरना तो स्नान न कर पाए। ऐसी यमुना, और सड़कों पर गंदगी का ढेर... दिल्ली को नक्क बनाने का काम ये आप-दा ने किया है।

केजरीवाल पर शाह का निशाना

झुग्गी वासी प्रधान के सम्बल करते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जम्मू-कश्मीर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ब्रह्माचर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अरविंद केजरीवाल आज आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। जहां जहां मनोष सिसोदिया और केजरीवाल जाते हैं उन्हें शराब की बोतल दिखाई देती है। झुट बोलने वाली सरकार से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है।

हमारी घोषणापत्र में हर दर्द का इलाज

अपित शाह ने कहा कि आपके एक-एक दुख-दर्द का इलाज हमारे घोषणापत्र में होता है और भाजपा का घोषणा पत्र पर्याप्त का लकार होगा।



अश्विनी वैष्णव ने बदे भारत का वीडियो शेयर किया

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कटरा-श्रीनगर रूट के लिए डिजाइन की गई बदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो शेयर किया। ये ट्रेन जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ेंगी। सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किए गए, 49 सेकंड के वीडियो द्वारा जारी किया गया है। यह बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट है। रेलवे अधिकारी यह एक प्रारंभिक यह वंद भारत ट्रेन के अपरेंट वर्कर है। इसे जम्मू-कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ट्रेन में अपडेटेड होती गयी नई सुविधाओं के बारे में जोड़ी गई हैं। यह बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट है। रेलवे अधिकारी यह एक प्रारंभिक यह वंद भारत ट्रेन के अपरेंट वर्कर है। इसे जम्मू-कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे खबर मौसम में भी चलाया जा सके और यात्रियों को बुराई से रोकता है। ट्रेन में अपडेटेड होती गयी नई सुविधाओं के बारे में जोड़ी गई हैं। यह बहुत ही जटिल प्रोजेक्ट है। रेलवे अधिकारी यह एक प्रारंभिक यह वंद भारत ट्रेन के अपरेंट वर्कर है। इसे जम्मू-कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे खबर मौसम में भी चलाया जा सके और यात्रियों को बुराई से रोकता है। इसे जम्मू-कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे खबर मौसम में भी चलाया जा सके और यात्रियों को बुराई से रोकता है। इसे जम्मू-कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे खबर मौसम में भी चलाया जा सके और यात्रियों को बुराई से रोकता है। इसे जम्मू-कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे खबर मौसम में भी चलाया जा सके और यात्रियों को बुराई से रोकता है। इसे जम्मू-कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि इसे खबर मौसम में भी चलाया जा सके

ठंड में सुबह जोड़ों में दर्द से बचने के उपाय



दर्द कैसे करें दूर, क्या खाएं और क्या न खाएं

एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट फॉलो करें

जोड़ों में दर्द के पीछे इंफ्लेमेशन एक मुख्य वजह है। सर्दियों में कोल्ड से बचने के लिए शरीर का इय्यूल रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। इसके कारण इंफ्लेमेशन बढ़ जाता है और जोड़ों का दर्द भी बढ़ जाता है। दर्द से निपटने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट फॉलो करना जरूरी है। इसके लिए ये टिप्पणी कर सकते हैं।

- भोजन में सभी रंग के फल और सब्जियां शामिल कर सकते हैं। जई, राई, बाजरा, बिवोनआ और ब्राउन ग्राइस शामिल कर सकते हैं।
- सभी दालें, चना, ब्लैक बीन्स और लाल राजमा शामिल कर सकते हैं। डाइट में तेल को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। जैतून का तेल शामिल कर सकते हैं।
- बादाम, अखरोट, चिंचा सीडीस और फ्लेक्स सीडीस शामिल कर सकते हैं।
- अदरक, लहसुन, हल्दी, इलायची, काली मिर्च और दालचीनी शामिल कर सकते हैं।
- गट हेल्प के लिए फ्लायदेर्म दही, पनीर और केला खा सकते हैं।
- डाइट में प्रॉसेस्ड, अल्ट्राप्रॉसेस्ड

फूड, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर से परेज बरतें।

- मौसमी फल और सब्जियां खाएं।
- हर मौसम में शरीर को अलग-अलग मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनसे निपटने के लिए प्रकृति मौसमों के मुताबिक फल और सब्जियां उगाते हैं।
- आंवला, अमरुद और संतरा ठंड में मिलने वाले फल हैं और ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं।
- फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रॉकली और गाजर ठंड में मिलने वाली सब्जियां हैं और ये एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं।
- डाइट में ये फल और सब्जियां शामिल करने से जोड़ों की अकड़न और दर्द में राहत मिल सकती है।

हो जाता है। अब सवाल ये है कि इस दर्द से निपटने का तरीका क्या है।

सर्दियों में बढ़ता जोड़ों का कम और किसी को कम और दर्द होता है। यह किसी को कम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन' में मार्च 2014 में प्रक्लिश एक स्टडी के मुताबिक, सर्दियों में आर्थराइटिस के लक्षण बढ़ जाते हैं। इस स्टडी में शामिल अकड़न बढ़ने के कई कारण हैं। ठंड में ट्रैपरेवर कम होने के कारण ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं। इसके कारण ब्लड फ्लॉट में दर्द और दर्द बढ़ने पर उनके जोड़ों में सूजन और दर्द बढ़ जाता है।

ज्यादा घरेलू सहायता है। सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी कम होने से और ऐर मूड में बदलाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में जो लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, उनके लिए इस मौसम में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, पूरी दुनिया में 52.8 करोड़ लोगों को आर्थराइटिस है। इनिया में लागू करोड़ 76 लाख लोगों को रूमेंट्रॉइड आर्थराइटिस है। इन सभी लोगों के जोड़ों में सूजन है, जो सर्दियों में और बढ़ जाती है। इसके कारण दर्द भी बढ़ जाता है। कई बार तो सर्वियों में इनके लिए चलना-फिरना तक मुश्किल हो जाता है।

हाथ-पैर में गर्महाट भी कम हो जाती है।

इसके कारण जाइंट्स का फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है। यह कंडीशन जोड़ों में अकड़न और दर्द की वजह बनती है।



जोड़ों की अकड़न और दर्द से कैसे बच सकते हैं

- हम अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके जोड़ों के दर्द से निपट सकते हैं।
- ठंड के लिए सुबह और शाम के समय घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर के सभी काम दिन में पूरे करने की कोशिश करें।
- शरीर में गर्महाट बनाए रखने के लिए गर्म कपड़े और जूते पहनने करें।
- बॉडी एक्टिव रखने के लिए कुछ देर इनोड एक्सरसाइज करें।
- ठंड में ज्यादातर लोगों का लिंकिंग डाइट इनटेक बहुत ज़रूरी है। इसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। इससे जोड़ों में अकड़न हो सकती है और प्लूइड कम हो सकता है। यह दर्द की वजह बनती है। इसलिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है।
- शारीरिक और मानसिक स्ट्रेस बढ़ने से दर्द का एहसास सामान्य से ज्यादा होता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
- जोड़ों में दर्द की समस्या होने पर डॉक्टर सबसे पहले बजने के लिए ज्यादा देते हैं। बजने पर ज्यादा होने से जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे लक्षण गंभीर हो जाते हैं। इसलिए वे मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हैं।

इन समस्याओं से बचने के उपाय

अगर आपको ठंड में बाहर दौड़ते समय ही पैरों में दर्द हो रहा है, तो आपके पास व्यायाम कर ते स म य अपने बात की खोज करने पर केंद्रित होगा कि आपको ठंड के मौसम में दर्द क्यों बढ़ रहा है और समस्या को हल करने या प्रबंधित करने के लिए उपचार प्रदान किया जाएगा। पांच मिनट या उससे ज्यादा समय तक स्ट्रेच करें। वार्ष-अप एक्सरसाइज आपकी मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह को बढ़ावाएं और आपके शरीर के तापमान को बढ़ावाएं। आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देती है। व्यायाम करने से पहले वार्ष-अप करने से जोड़ों की अकड़न भी कम होती है और जोड़ों की चोटों से बचाव होता है।



सर्दियों में टोपी पहनकर सोने से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

सर्दियों में ठंड से बचने और शरीर को गर्मी देने के लिए ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। यह हमें ठंडी हवाओं से बचाने का काम करता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि रात के समय में लोग स्वेटर, टोपी पहनकर ही सो जाते हैं। यह हमें ठंड से बचाना है, ही लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियों को जन्म देने के लिए इस आर्टिकल के माध्यम से आज जानेंगे कि सर्दियों में टोपी पहनकर सोने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं।



टोपी पहनकर सोने से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

सिर में दर्द

ठंड के दिनों में टोपी पहनकर सोने से सिर में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि टोपी टाइट होती है। जिसकी वजह से ये ज्यादा दबाव पड़ता है। बालों में एंटन की समस्या हो सकती है। बालों और उसकी जड़ों में दबाव आ सकता है। जिससे बालों में रूखेपन, दूटना और कमज़ोर



सर्दियों में चेहरे का नूर हो जाएगा दोगुना

सर्दी के दिनों में शुष्क हवाओं से त्वचा बहुत रुखी हो जाती है। जिससे चेहरा काफी डल होने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए संक्रमण का खतरा होने का डर रहता है।

हृदय को खतरा

रात में टोपी पहनकर सोने से हार्ट पर बुरा असर पड़ता है।

इससे दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है।

लड़ प्रेशर की समस्या

टोपी पहनकर सोने से ब्लड प्रेशर की समस्या होने का डर बनता है।

ये टोपी पहनकर सोने से ब्लड प्रेशर की समस्या होने का डर बनता है।

नारियल पानी पिएं

लोग सर्दियों में पानी पीने की कम कर देते हैं जो रिक्विक के साथ ही चाहिए, बहुत सारे लोग गमी में तो नारियल पानी पीते हैं, तो लोग नारियल से न

सिर्फ चेहरे पर नेचुरल ग्लो

आएगा, बल्कि रंग भी निखलती

है और सेहत को भी फायदा होता

है। सेहत से लेकर त्वचा, बाल

और नाखूनों तक से जड़ी प्रॉब्लम

सबसे ज़रूरी है कि आपकी त्वचा

सेहत को बढ़ावा देती है।

लेमन और हनी वाटर


लोग सर्दी के दिनों में लीबू और हनी वाटर करते हैं, जबकि से रिटिमिन सी को बेहतरीन सोर्स है, इसकी त्वचा के साथ ही चाहिए, बहुत सारे लोग गमी में तो नारियल पानी पीते हैं, तो लोग नारियल से न

सिर्फ चेहरे पर नेचुरल ग्लो

आएगा, बल्कि इसकी नारियल

है और ज्यादा ज़रूरी है।

जसोल मंदिर में हाईकोर्ट जज ने किए दर्जन



न्यायाधीश
व्यास ने मंदिर
व्यवस्थाओं का
सराहा

लिए उपलब्ध कार्ड गई सुविधाएं बेहद उपयोगी हैं। इस

बालोतरा। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रभु मदन गोपाल व्यास ने पौधे शुक्रल पर भट्टोदारी को श्री राणी भट्टाचारी मंदिर, जसोल में विशेष दर्शन किए। उनके साथ जिला एवं सेशन न्यायाधीश मंशाराम सुथार, विशिष्ट न्यायाधीश मंशाराम हुकमासिंह राज पुरोहित सहित अन्य कर्तव्यों की भी व्यवस्था थी। न्यायाधीश प्रभु व्यास ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और यहां की स्वच्छता, हरियाली और शान वातवरण की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि तीन साल पहले भी उन्होंने यहां दर्शन किए थे और तब से अब तक मंदिर में काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि संस्थान के अध्यक्ष गवल किशन सिंह जसोल के नेतृत्व में भट्टाचारी को व्यास का दर्शन दिया गया है। मंदिर में विकास चालू होने रहा है। मंदिर में भट्टाचारी के लिए एक गड़ी बालोतरा के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त मुख्य आयुक्त गवल किशन सिंह जसोल से उनके निवास गवलगढ़ में मूलताकात की। इसके बाद मंदिर में दर्शन करने परिसर का निरीक्षण किया। मुख्य

बालोतरा। सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुक्रल के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा ने जसोल धाम के दर्शन के दौरान यहां आए। उन्होंने सर्वप्रथम श्री राणी भट्टाचारी मंदिर संस्थान के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त मुख्य आयुक्त गवल किशन सिंह जसोल से उनके निवास गवलगढ़ में मूलताकात की। इसके बाद मंदिर में दर्शन करने परिसर का निरीक्षण किया। मुख्य

बालोतरा। जसोल संवाददाता

जैसलमेर। सेवा भारती समिति

जैसलमेर द्वारा द्वितीय सर्वजीवी

समूहिक विवाह समारोह एक मार्च की

आयोजित विवाह जाएगा। सेवा भारती

समिति जैसलमेर के सभापंथी हीरालाल समाज के बताया कि विवाह एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अनुष्ठान है, जिस पूर्ण करना हर माता-पिता का समान होता है। इसी की ध्यान में रखकर सेवा भारती गवल करने वाले कोई भी वैयाहिक अनुष्ठान के इच्छक आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम

में जैसलमेर जिले की सेवा भारती समिति ने एक मार्च की तिथि निश्चित की है। पंजीयन प्रक्रिया आठ जनवरी से प्रारंभ कर दिए गए हैं। समूहिक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए, 15 फरवरी तक पंजीयन किए जाएं। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए उसके बादी में घूमने जरूर आता है। सहेली गूह पर स्थित कालायल आदर्श विवाह मंदिर (मार्टिया बोनी के पांचे) में शाम पांच बजे से शहेलियों की बाड़ी में बहुत ही सुंदर कमल के ताल एवं फूल हैं। साथ ही

जैसलमेर। सेवा भारती समिति

जैसलमेर में द्वारा द्वितीय सर्वजीवी

समूहिक विवाह समारोह एक मार्च की

आयोजित विवाह जाएगा। सेवा भारती

समिति जैसलमेर के सभापंथी हीरालाल

समाज के बताया कि विवाह एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अनुष्ठान है, जिस पूर्ण करना हर माता-पिता का समान होता है। इसी की ध्यान में रखकर सेवा भारती गवल करने वाले कोई भी वैयाहिक अनुष्ठान के इच्छक पंजीयन करना सकते हैं।

■ जागरुक टाइम्स संवाददाता

जैसलमेर। सेवा भारती समिति

जैसलमेर में द्वारा द्वितीय सर्वजीवी

समूहिक विवाह समारोह एक मार्च की

आयोजित विवाह जाएगा। सेवा भारती

समिति जैसलमेर के सभापंथी हीरालाल

समाज के बताया कि विवाह एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अनुष्ठान है, जिस पूर्ण करना हर माता-पिता का समान होता है। इसी की ध्यान में रखकर सेवा भारती गवल करने वाले कोई भी वैयाहिक अनुष्ठान के इच्छक पंजीयन करना सकते हैं।

11 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य

समिति के द्वायोर खारी ने बताया कि इसका आयोजन 1 मार्च को मुख्येश्वर महादेव मंदिर परिसर में होगा। जिसमें हाले 11 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा है। हमारा उद्देश्य गर्व और परिवारों की मदद करना है जो सार्वी-विवाह का खर्च आदि उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उनकी मदद भी ही जाती है और एक घर भी भवा जाता है। इसका सारा खर्च समिति उठाना है। समिति ने सबको अपीली की है कि ज्यादा से ज्यादा का एक साल परिवार के लिए एक साल समाप्ति बनाए रखा जाए। इसका सारा खर्च विवाह के लिए एक साल परिवार के लिए एक साल समाप्ति बनाए रखा जाए। इसका सारा खर्च विवाह के लिए एक साल समाप्ति बनाए रखा जाए।

■ जागरुक टाइम्स संवाददाता

जैसलमेर। सेवा भारती समिति

जैसलमेर में द्वारा द्वितीय सर्वजीवी

समूहिक विवाह समारोह एक मार्च की

आयोजित विवाह जाएगा। सेवा भारती

समिति जैसलमेर के सभापंथी हीरालाल

समाज के बताया कि विवाह एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अनुष्ठान है, जिस पूर्ण करना हर माता-पिता का समान होता है। इसी की ध्यान में रखकर सेवा भारती गवल करने वाले कोई भी वैयाहिक अनुष्ठान के इच्छक पंजीयन करना सकते हैं।

उदयपुर में 13 दिन बंद रहेंगी सहेलियों की बाड़ी

गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर व्यवस्था बढ़ावी

■ जागरुक टाइम्स संवाददाता

उदयपुर। उदयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी 13 जनवरी से आगामी 13 दिनों के लिए बंद रहेगी। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ कार्यक्रम यहां होने की वजह से इस पर्यटक स्थलों पर महाराष्ट्र प्रस्तावित की एक बड़ी बांदी लगायी जाएगी। उदयपुर में आगे वाला दूरस्तर सहेलियों की बाड़ी में घूमने जरूर आता है। सहेली गूह पर स्थित कालायल आदर्श विवाह मंदिर (मार्टिया बोनी के पांचे) में शाम पांच बजे से बातोंका विवाह करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे।

उदयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी 13 जनवरी से आगामी 13 दिनों के लिए बंद रहेगी। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ कार्यक्रम यहां होने की वजह से इस पर्यटक स्थलों पर महाराष्ट्र प्रस्तावित की एक बड़ी बांदी लगायी जाएगी। उदयपुर में आगे वाला दूरस्तर सहेलियों की बाड़ी में घूमने जरूर आता है। सहेली गूह पर स्थित कालायल आदर्श विवाह मंदिर (मार्टिया बोनी के पांचे) में शाम पांच बजे से बातोंका विवाह करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे।

■ जागरुक टाइम्स संवाददाता

उदयपुर। उदयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी 13 जनवरी से आगामी 13 दिनों के लिए बंद रहेगी। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ कार्यक्रम यहां होने की वजह से इस पर्यटक स्थलों पर महाराष्ट्र प्रस्तावित की एक बड़ी बांदी लगायी जाएगी। उदयपुर में आगे वाला दूरस्तर सहेलियों की बाड़ी में घूमने जरूर आता है। सहेली गूह पर स्थित कालायल आदर्श विवाह मंदिर (मार्टिया बोनी के पांचे) में शाम पांच बजे से बातोंका विवाह करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे।

उदयपुर का प्रमुख पर्यटन स्थल सहेलियों की बाड़ी 13 जनवरी से आगामी 13 दिनों के लिए बंद रहेगी। उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ कार्यक्रम यहां होने की वजह से इस पर्यटक स्थलों पर महाराष्ट्र प्रस्तावित की एक बड़ी बांदी लगायी जाएगी। उदयपुर में आगे वाला दूरस्तर सहेलियों की बाड़ी में घूमने जरूर आता है। सहेली गूह पर स्थित कालायल आदर्श विवाह मंदिर (मार्टिया बोनी के पांचे) में शाम पांच बजे से बातोंका विवाह करने वाले लोगों के लिए उपलब्ध करेंगे।

उदयपुर में 13 दिन बंद रहेंगी सहेलियों की बाड़ी



अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य कुं. हरिश्चंद्रसिंह जसोल ने न्यायाधीश परिवार को इतिहास पुस्तक भेंट कर

राणी रूपादेव की तरफ वर्तीमान विवाह की विवाह को सम्मानित किया।

राणी रूपादेव की तरफ वर्तीमान विवाह की विवाह को सम्मानित किया।

राणी रूपादेव की तरफ वर्तीमान विवाह की विवाह को सम्मानित किया।

राणी रूपादेव की तरफ वर्तीमान विवाह की विवाह को सम्मानित किया।

राणी रूपादेव की तरफ वर्तीमान विवाह की विवाह को सम्मानित किया।

पुलिस बड़े में फ्रेटबदल: 12 निरीक्षक एवं 17 उप निरीक्षकों का तबादला

आनन्द कुमार एवं अनिता राणी फिर पाली से सिरोही आए

जागरूक टाइम्स संवाददाता

सिरोही। डीआईजी प्रदीप मोहन शर्मा ने शुक्रवार को 12 पुलिस निरीक्षक व 17 उप निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की तरह उच्च तुलन नवपद-स्थापन स्थान पर उपरिक्षित देवे तथा कार्यमुक्त के निर्देश दिए हैं।

इन पुलिस निरीक्षकों का तबादला

- अशोक कुमार को जालोर से पाली
- बाबूलाल जाहिंग को जालोर से पाली
- सहदेव और्ध्वी को सिरोही से पाली
- आनन्द कुमार को पाली से सिरोही
- अनिता राणी को पाली से सिरोही
- हरचंद देवासी को पाली से सिरोही
- मोहनलाल गर्ग को पाली से जालोर
- सुमेरदाल को पाली से जालोर
- अचलदाल को पाली से सिरोही
- लक्ष्मणसिंह को पाली से सिरोही
- लता कुमारी बेगङ को सिरोही से पाली
- देवीदान बारहट को जालोर से पाली

इन उप निरीक्षकों का तबादला

- भगवानराम को पाली से सिरोही
- गीतासिंह को पाली से सिरोही
- सरिता इश्नोई को पाली से सिरोही
- उरजाराम को जालोर से पाली
- मनोहरलाल को जालोर से पाली
- परिवद्व और को जालोर से पाली
- हिम्मताराम को पाली से जालोर
- मनीष सोनी को पाली से सिरोही
- विर्जल कुमार को पाली से सिरोही
- मीठालाल को पाली से जालोर
- भगवानसिंह को जालोर से सिरोही
- भवराम को जालोर से पाली
- धेवराम को जालोर से पाली
- हिंगलाजाल को सिरोही से पाली
- कमला को सिरोही से पाली
- पहलाल को सिरोही से पाली
- सहीराम को सिरोही से पाली



भागवत कथा में सुनाया राजा उत्तानपाद व ध्रुव का प्रसंग

जागरूक टाइम्स संवाददाता

सिरोही। शहर के प्रधानमंत्री गोर्गां ने चल रही श्रीमद भागवत कथा के तीसरे दिन शनिवार को राजा उत्तानपाद व ध्रुव समेत अन्य प्रसंग सुनाएं। संत रामायादास एवं संत पालबाबा के सानिय में कथा वाचक संस्कृत साहित ने नवध भक्ति की व्याख्या करते हुए कथा श्रवण करना ही परम मोक्षदायिनी है। उन्होंने राजा परीक्षित और सुखदेव, उत्तानपाद एवं ध्रुव का बुतां सुनाया गया। संतोष सागर ने बताया कि

संसार के मोह की मुक्ति का एक ही उपाय है कि मोह त्याग कर भाव एवं प्रेम से मोहन में मन को लागा ही हरी मिलन का मार्ग है। उन्होंने कर्मों के आधार पर स्वर्ग और 28 प्रकार के नरकों की व्याख्या की। भागवत आयोजन में भगवतीलाल ओझा, अमृतलाल यास, रामलाल खेंडेलवाल, नरेपालसिंह, महेंद्रपालसिंह, रियापालसिंह, राजेंद्रसिंह नरका, ओकारसिंह उदावत, राजेंद्रसिंह राठौड़, मोहनलाल माली, पुजा खेंडेलवाल, अथवजसिंह आदि मौजूद थे।

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव : दोशनी से जगमगाया आपेक्षवर मंदिर

जागरूक टाइम्स संवाददाता

सिरोही। पिण्डावाड़ा भव्य एवं दिव्य लील दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज 17 जनवरी से हो रहा है। महोत्सव के पहले दिन शुक्रवार को सर्वे से शाम तक दशहीरी जागा, प्रायोद्युषण पंचकर्म, मंडप प्रवेश, कलश यात्रा, स्थापित देव प्रामो उपर्युक्त कर्म होंगे। दूसरे दिन शनिवार को सर्वे पूजन, रुद्र हवन, हवन शिरवर, अभिषेक, कुटीर देव एवं रात को भजन संघ का आयोजन किया जाएगा। जिसमें दुर्वोकेट प्रकाश माली प्रस्तुतियाँ होंगी। तीसरे दिन सर्वे शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठा, लोरान स्थापित द्वाजा दण्ड इकां प्रतिष्ठा एवं पूर्णिमित के बाद प्रासाद वितरण होंगी। इसके बाद महाप्रसादी फले चुड़ी जैव वीली एवं चुनरों के नोटरे में आयोजित होंगी। इस अनुष्ठान में पुजारी हरिष भाई द्यावांकर ओझा संभी धार्मिक कार्यक्रम करताएँगे।



तैयारी में लगे कमेटी सदस्य

प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को लेकर आपेक्षर महादेव मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजीव चौधरीया, उत्तापाल सिंह, काशिव शिंदे, संचिव काशिवलाल माली, संरक्षक लक्ष्मणदास सुधार, सहस्यव शिंदे सिंह, कोषाध्यक्ष प्रवीणसिंह, उमरावत, सद्भव लुम्बदास मेघाल, नारायणलाल माली, शारिलाल सोनी, हरिश ओझा, भरतसिंह परमार, दिलेश पटेल, राकेश शारवत, धीरज ख्यत्री समेत अन्य भक्तों ने महादेव मंदिर का दर्शनीय जीर्णोद्धार करताया गया है। लील दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आपेक्षर महादेव मंदिर समेत आस-पास के क्षेत्रों को रोशनी से सजाया गया है।

परिवार नियोजन के लिए सुरक्षित साधन 'अंतरा'



जागरूक टाइम्स संवाददाता

सिरोही। गर्भनीरोधक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रोलसिंह (अंतरा) इंजेक्शन को लेकर अप्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण स्वास्थ्य भवन सभागार में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सीमाएंचओ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि अंतरा लगाने वाली महिलाओं को

नियमित फोलो अप करने और 3 माह के अंतराल से बुलाकर अगली डोज देने की बात कही। उन्होंने प्रशिक्षणाधियों को बताया कि नाम से अन्लाइन सौफ्टवेयर भी संचालित है। जिसके माध्यम से हर 3 माह से लाभार्थी होने पर रिमाइंडर मिल जाता है। उन्होंने ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्रांतिकारी साबित हुए अंतरा एमपीए इंजेक्शन की सेवाएं अब जिला अस्पताल, सरकारी भूमि पर किए जाएंगे।

सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को हटवाने की मांग

जागरूक टाइम्स संवाददाता

मंडारा। मगरीबाड़ा के ग्रामीणों ने शनिवार को उपर्युक्त अधिकारी को जाप देकर सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मगरीबाड़ा हाईवे रोड के जावल-घनपुरा आम चोराहे के पास शमशान भूमि में पर जाने वाला आम रस्ता एवं नाला बना द्या है। जिस पर ग्रामीण कई बांधों से यही यही

होकर आवागमन कर रहे हैं। वर्तमान में इस सरकारी भूमि पर अप्रार्थी भगवतसिंह पुत्र हनवंतसिंह, भौपन्द्रसिंह पुत्र खुमानसिंह, नगोन्दसिंह पुत्र शैतानसिंह ने उस भूमि पर कब्जा कर तारबंदी करने के बाद उत्तर रस्तों को भी बंद कर दिया है। ऐसे में उस कब्जा की सीमाजान करवाकर अवैध कब्जे को हटाया जाए। गणपत जोशी, जोरारसिंह, भोपसिंह, नायरासिंह एवं कांतिलाल आदि मौजूद थे।

जागरूक टाइम्स संवाददाता

मंडारा। मगरीबाड़ा के ग्रामीणों ने शनिवार को उपर्युक्त अधिकारी को जाप देकर सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मगरीबाड़ा हाईवे रोड के जावल-घनपुरा आम चोराहे के पास शमशान भूमि में पर जाने वाला आम रस्ता एवं नाला बना द्या है। जिस पर ग्रामीण कई बांधों से यही यही

होकर आवागमन कर रहे हैं। वर्तमान में इस सरकारी भूमि पर अप्रार्थी

भगवतसिंह पुत्र हनवंतसिंह, भौपन्द्रसिंह पुत्र खुमानसिंह, नगोन्दसिंह पुत्र शैतानसिंह ने उस भूमि पर कब्जा कर तारबंदी करने के बाद उत्तर रस्तों को भी बंद कर दिया है। ऐसे में उस कब्जा की सीमाजान करवाकर अवैध कब्जे को हटाया जाए। गणपत जोशी, जोरारसिंह, भोपसिंह, नायरासिंह एवं कांतिलाल आदि मौजूद थे।

जागरूक टाइम्स संवाददाता

मंडारा। मगरीबाड़ा के ग्रामीणों ने शनिवार को उपर्युक्त अधिकारी को जाप देकर सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मगरीबाड़ा हाईवे रोड के जावल-घनपुरा आम चोराहे के पास शमशान भूमि में पर जाने वाला आम रस्ता एवं नाला बना द्या है। जिस पर ग्रामीण कई बांधों से यही यही

होकर आवागमन कर रहे हैं। वर्तमान में इस सरकारी भूमि पर अप्रार्थी

भगवतसिंह पुत्र हनवंतसिंह, भौपन्द्रसिंह पुत्र खुमानसिंह, नगोन्दसिंह पुत्र शैतानसिंह ने उस भूमि पर कब्जा कर तारबंदी करने के बाद उत्तर रस्तों को भी बंद कर दिया है। ऐसे में उस कब्जा की सीमाजान करवाकर अवैध कब्जे को हटाया जाए। गणपत जोशी, जोरारसिंह, भोपसिंह, नायरासिंह एवं कांतिलाल आदि मौजूद थे।

जागरूक टाइम्स संवाददाता

मंडारा। मगरीबाड़ा के ग्रामीणों ने शनिवार को उपर्युक्त अधिकारी को जाप देकर सरकारी भूमि पर किए अतिक्रमण को हटवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि मगरीबाड़ा हाईवे रोड के जावल-घनपुरा आम चोराहे के पास शमशान भूमि में पर जाने वाला आम रस्ता एवं नाला बना द्या है। जिस पर ग्रामीण कई बांधों से यही यही

होकर आवागमन कर रहे हैं। वर्तमान में इस सरकारी भूमि पर अप्रार्थ

समय पर हो मरीजों का इलाज : सीएम

|| कैम्पस का दौरा कर फडणवीस ने दिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश ||

► मेयो और 'मेडिकल' की विश्वसनीयता अधिक

■ जागरूक टाइम्स संचाददाता

नागपुर। इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेयो) और शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेडिकल) की विश्वसनीयता अधिक है। यहां की चिकित्सा सेवाएं सुविधाएं बढ़े और अधिक से अधिक



जरूरतमंद मरीजों का समय पर इलाज हो, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया है। ये कार्य योजना के अनुसार समयसीमा में पूर्ण किए जाएं, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री एवं अस्पताल (मेडिकल) का

देवेंद्र फडणवीस ने दिए। नागपुर स्थित इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेयो) और शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल (मेडिकल) का

मुंबई टोरेस निवेश घोटाला




पांच करोड़ बरामद, तीन गिरफ्तार

► ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई

■ जागरूक टाइम्स संचाददाता

मुंबई। मुंबई में टोरेस निवेश घोटाला की जांच अपने हाथ में लेने के बाद मुंबई पुलिस की अधिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने इस मामले में शुरूआत को बढ़ा कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने दादर में लैलीरी स्टोर और शहर के एक फ्लैट से निवेशकों द्वारा जमा किए गए पांच करोड़ रुपए नकद जब्त किए। मुंबई पुलिस ने देखिंग मुंबई के कोलाबा में आरोपियों में से एक तानिया उर्फ तजागुल करकरानेवा जासतोवा (52) द्वारा पर लिए गए एक फ्लैट से 77 लाख रुपए अपने कब्जे में लिए हैं। ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा कि जासतोवा टोरेस स्टार में एक महाप्रबंधक के रूप में काम करती थी। एक हजार से अधिक 'कीमती पत्रक' भी बरामद किए हैं।

सीएम जास्तोवा समेत तीन गिरफ्तार



प्लेटिनम हर्न के खिलाफ केस दर्ज


ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा कि टोरेस निवेश घोटाला कीरी 22 करोड़ रुपये की है। मुंबई पुलिस ने 'टोरेस' आधारण बांड चलाने वाली लेस्टिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके निवेशकों के खिलाफ निवेशकों से 13.48 करोड़ रुपये से अधिक की ठीकी का मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के मुख्यालय टोरेस घोटाला की अंजाम देने वालों ने मुंबई के अलावा नवी मुंबई, मीरा भव्यदर सहित आसपास के सैकड़ों निवेशकों को भी कपानी ने निवेश योजना के तहत डगा है।

शादी का झांसा देने वाला भोपाल से गिरफ्तार

■ जागरूक टाइम्स संचाददाता

ठाणे। एक वैद्यकीय साइट से संपर्क करके ठीकी का मामला मुंबई पुलिस स्टेशन की सीमा अंतर्गत जैद फुल खान (26) ने शादी का बाद करके पीड़िता का विश्वास जीतकर 13.54 लाख रुपए ठाणे की जांच अपने हाथ में लेने के बाद मुंबई पुलिस स्टेशन में शादीकारी की आरोपी लाख रुपए की जांच अपने हाथ में लेने के बाद अस्पताल की आरोपी की ठीकी का मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि जासतोवा टोरेस स्टार में एक महाप्रबंधक के रूप में काम करती थी। एक हजार से अधिक 'कीमती पत्रक' भी बरामद किए हैं।

पीड़िता



पीड़िता

महाराष्ट्र सदन में कल तक उत्पादों की बिक्री प्रदर्शनी

► ग्रामीण उत्पादों को शहरों से जोड़ने का प्रयास

■ जागरूक टाइम्स संचाददाता

मुंबई। कस्तुरा गांधी स्थित महाराष्ट्र सदन में नवांडे के सहयोग से अपने 13 जनवरी तक भौगोलिक मानांकित (आईएइ) उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पाद शामिल हैं,

प्रदर्शनी में दिखी आकृषक वस्तुएं

प्रदर्शनी में नासिक जिले के येवले की भौगोलिक मानांकित दिवसी पैठीयों पर लिए गए हैं। नंदुराबाबर जिले के धडगाव तालुका रिश्त बैद्यकों की 'आम आखा एवं संस्कृत' अंडरवर्कर और योजना आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में नंदुराबाबर के विभिन्न जिलों के स्थानीय उत्पाद शामिल हैं,

वायों की भौगोलिक मानांकित प्राप्त की गयी है।

वायों की भौगोलिक मानांकित प्राप्त



राजस्थान सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव

13 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र का वितरण

एवं

लगभग 31 हजार करोड़ रुपये के 76 हजार से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास
द्वारा

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय समारोह

12 जनवरी, 2025 | बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर | प्रातः 11:00 बजे

शिलान्यास

- पीएम कुसुम योजना के 1174 कार्य (10569 करोड़ रुपये)
- 220 के.वी. जीएसएस के 12 कार्य (1233 करोड़ रुपये)
- 10,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत पौधशाला (500 करोड़ रुपये)
- 450 मेगावाट पूर्गल सोलर पार्क फेज-III (196 करोड़ रुपये)
- 49 अटल प्रगति पथ के कार्य (189 करोड़ रुपये)
- हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर के आई.एन.जी.पी के कमाण्ड क्षेत्र में ग्रीड सोलर फोटोवॉल्टिक वॉटर परियोजना (180 करोड़ रुपये)
- जल जीवन मिशन आपणी योजना फेज-1 एवं सरदार शहर के 60 गांवों में कार्य पैकेज-तृतीय (तारानगर-पांडुसर फीडर) (133 करोड़ रुपये)
- चौमूँ विधानसभा में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल के तहत बधाल ईटावा से एनएच-52 गोविन्दगढ़ सड़क निर्माण कार्य (95 करोड़ रुपये)
- 101 नग कैपेसिटर बैंक स्थापना कार्य (59 करोड़ रुपये)
- 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के 19 कार्य (48 करोड़ रुपये)
- 7118 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य विकास कार्य

लोकार्पण

- मनरेगा के तहत 46,751 जल स्रोतों की संरचनाओं के कार्य (5028 करोड़ रुपये)
- मनरेगा के तहत 13,424 पर्यावरण संरक्षण, चारागाह विकास तथा वृक्षारोपण कार्य (840 करोड़ रुपये)
- भीलवाड़ा, सीकर एवं सर्वाईमाधोपुर में सीवरेज परियोजना एवं परिसम्पत्तियों का निर्माण कार्य (577 करोड़ रुपये)
- पचपदरा में 400 के.वी. जीएसएस (391 करोड़ रुपये)
- आर.एस.एच.आई.डी.पी. के तहत चूरू-तारानगर-नोहर, एस.एच-36 (301 करोड़ रुपये)
- आर.एस. एच.आई.डी.पी. के तहत सिवाना-समदड़ी-बालेसर, एसएच-66 (245 करोड़ रुपये)
- आर.एस. एच.आई.डी.पी. के तहत बीकानेर-नापासर-जसरासर एसएच-20बी (175 करोड़ रुपये)
- बांसवाड़ा में सीवरेज नेटवर्क, शोधन संयंत्र एवं परियोजना का निर्माण कार्य (166 करोड़ रुपये)
- शाहपुरा (भीलवाड़ा) ब्लॉक में चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना-II के पैकेज पंचम हेतु रेट्रोफिटिंग कार्य (105 करोड़ रुपये)
- बीसलपुर-चाकसू पेयजल परियोजना का कार्य (74 करोड़ रुपये)
- 2685 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य विकास कार्य

निर्भाव जिम्मेदारी-हर घर खुशहाली

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार